

**BACHELOR'S DEGREE
PROGRAMME (BDP)**

Term-End Examination

June, 2026

(Elective Course : Commerce)

ECO-011 : ELEMENTS OF INCOME TAX

Time : 2 Hours

Maximum Marks : 50

Note : (i) *Question No. 1 is compulsory.*

(ii) *Attempt any **three** questions from
the remaining questions.*

-
-
1. The following are the particulars of Shri Apoorav for the A.Y. 2024-25. Compute his taxable income :

	14
	₹
(i) Income from house property (computed)	25,000

(ii)	LTCG on building	30,000
(iii)	Winning from lottery	80,000
(iv)	Life insurance premium paid	1,000
(v)	Interest on Govt. Securities	12,000
(vi)	Income from cloth business	1,25,000
(vii)	Profit from business of growing mushrooms	40,000
(viii)	Profit from business of dairy farming	15,000

2. What do you understand by 'prequisites' ? Explain the method of valuation of Rent-Free House with an example. 4+8
3. (a) What are the provisions of Section 16(ii) regarding entertainment allowance for non-government employees ? 6
- (b) What are the provisions regarding unrecognized provident fund in Income Tax Act, 1961 ? 6

4. (a) How would you determine the annual value of house property, which is self occupied for a part of the year and let out for the remaining part of the year ? 6
- (b) What do you understand by capital gain ? Differentiate between short term gain and long term capital gain. 2+4
5. (a) What is Gross Total Income ? Give the imaginary example of computing Gross Total Income. 6
- (b) What are the different Tax Authorities and what are their functions ? 6
6. Write short notes on any *two* of the following : 6+6
- (a) Agricultural Income
- (b) Exempted Income
- (c) Person
- (d) Bond Washing Transaction

ECO-11**स्नातक उपाधि कार्यक्रम****(बी. डी. पी.)****सत्रांत परीक्षा****जून, 2026****(ऐच्छिक पाठ्यक्रम : वाणिज्य)****ई.सी.ओ.-011 : आयकर के मूल तत्व****समय : 2 घण्टे****अधिकतम अंक : 50****नोट : (i) प्रश्न सं. 1 अनिवार्य है।****(ii) शेष में से कोई तीन प्रश्न हल कीजिए।**

1. निम्नलिखित विवरणों से अपूर्व की कर निर्धारण वर्ष
2024-25 के लिए कर योग्य आय की गणना कीजिए : 14

₹

(i)	मकान सम्पत्ति से आय (गणना की गई)	25,000
(ii)	भवन से दीर्घकालीन पूँजी लाभ	30,000
(iii)	लॉटरी से जीत	80,000

(iv)	जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान	1,000
(v)	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	12,000
(vi)	कपड़े के व्यापार से आय	1,25,000
(vii)	कुकरमुत्ता (मशरूम) उगाने के व्यवसाय से लाभ	40,000
(viii)	डेयरी फार्म के व्यवसाय से लाभ	15,000

2. अनुलाभ से आप क्या समझते हैं ? किराया मुक्त मकान के मूल्यांकन की विधि को उदाहरण सहित समझाइए। 4+8
3. (क) गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए मनोरंजन भत्ते के प्रावधान धारा 16(ii) के अनुसार क्या हैं ? 6
(ख) गैर-मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के बारे में आयकर अधिनियम 1961 के क्या प्रावधान हैं ? 6
4. (क) यदि मकान गतवर्ष में कुछ समय के लिए स्वयं के रिहायश के लिए प्रयोग किया गया हो तथा शेष वर्ष के लिए किराये पर उठाया गया हो, तो वार्षिक मूल्य कैसे निकाला जायेगा ? 6

(ख) पूँजी लाभ से आप क्या समझते हैं ? अल्पकालीन लाभ एवं दीर्घकालीन पूँजी लाभ में अन्तर बताइए।

2+4

5. (क) सकल कुल आय क्या है ? सकल कुल आय की गणना का काल्पनिक उदाहरण दीजिए।

6

(ख) विभिन्न कर अधिकारी क्या हैं तथा उनके क्या कार्य हैं ?

6

6. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ कीजिए :

6+6

(क) कृषि आय

(ख) कर मुक्त आय

(ग) व्यक्ति

(घ) दिखावटी लेन-देन (Bond Washing Transactions)

x x x x x